

**Motilal Oswal Home Finance Limited**  
 Regd. Office: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road,  
 Opp. Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, CS : 8291889898  
 Website: www.motilalosalhf.com, Email: hfquery@motilalosalhf.com

**POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)**  
 (UNDER RULE 8 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of Motilal Oswal Home Finance Limited, (Formerly known as Aspire Home Finance Corporation Ltd), under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned hereunder calling upon the following borrowers to repay the amount mentioned in the notice being also mentioned hereunder within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The following borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the following borrowers and the public in general that undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned hereunder:

Sr No.	Loan Agreement No. / Name of the Borrower/ Co Borrower/Guarantor	Date of Demand Notice and Outstanding	Date of possession Taken	Description of the Immovable Property
1	LXMOMAYURV721-220621283 Krishna Mohan & Parmila Devi	11-07-2023 for Rs. 2249971/-	30-07-2024	Flat No. Gf-3 (Hig), On Ground Floor, Back Side Without Roof Rights, Plot No. A-16 Out Of Khasra No. 1277, Situated Residential Colony, SIF Ved Vihar, Village Sadullabad Pargana, Loni Tehsil & District Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001.
2	LXMOFARIDA721-220625538 Anuj Chauhan & Rajni Singh	18-09-2023 for Rs. 1253766/-	29-07-2024	Khasra No -308, Village- Sadullahbad Preet Vihar, Tehsil- Loni, Dist- Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of Motilal Oswal Home Finance Limited for an amount mentioned herein above and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place : Uttar Pradesh  
 Date : 02.08.2024

Sd/-  
 Authorized Officer  
 (Motilal Oswal Home Finance Limited)

**AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE**

Retail Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010.  
 Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samarsheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (2) read with Rule-8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule 8 of the said Rules. The borrower/s mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers/ Guarantors/Address	Description of the charged/ Mortgaged Property	Amt. Due as per Demand notice
Mr. Balwant Singh (Borrower) S/o Santokh Singh, Santokh Singh (Co-Borrower) S/o Dayal Singh both R/o-1. Village Baksora, Post Kunda Tehsil Jaspur, Near Gurudwara, District U.S. Nagar, Uttarakhand- 244713, R/o-2. House No. 216, Mohalla, Bajar Bhoop Singh, Jaspur, District U.S. Nagar, Uttarakhand. 244713.	Land/property admeasuring area 50.64 sq.mt, situated at Shop No. 216, Mohalla, Bajar Bhoop Singh, Ward No. 8, Jaspur, District U.S. Nagar, Uttarakhand. 244713, Bounded as: East - Rasta Nagar Palika, West - Land Of Others, North - Shop Of Yasin, South - House Sachin.	Rs. 31,55,068.00 Rs. 1,93,429.00 as on 10.11.2021 + interest & other expenses 11.11.2021 10.07.2024

Date- 02.08.2024 Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

**SAH POLYMERS LIMITED**  
 Regd. Office : E-260-261, Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur - 313003 CIN: L24201RJ1992PLC006657  
 Email: info@sahpolymers.com website: www.sahpolymers.com Tel : 0294-2490534 Fax No. 0294-2490534

EXTRACT FROM THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024  
 Amount in ₹. Lakhs

Sl. No.	PARTICULARS	3 months quarter ended in current year	Corresponding 3 months ended in previous year	Year ended
		30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	2941.99	2382.89	11151.67
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items	45.91	87.34	135.44
3	Net Profit for the period before tax and after Exceptional items	45.91	87.34	135.44
4	Net Profit for the period after tax and after Exceptional items	29.60	61.11	92.51
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	29.60	61.11	92.51
6	Equity Share Capital	2579.60	2579.60	2579.60
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	0.00	0.00	8706.67
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.00	0.00	0.00
1.	Basic	0.11	0.24	0.36
2.	Diluted	0.11	0.24	0.36

Note:  
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company www.sahpolymers.com and of National Stock Exchange Limited (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).  
 2. Key standalone financial information:

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income	2431.33	2005.74	10295.44
2	Profit/(Loss) before tax	35.22	54.99	84.18
3	Profit/(Loss) for the period after tax	28.36	42.59	66.35
4	Other Comprehensive Income	0.00	0.00	0.00
5	Total Comprehensive Income for the period	28.36	42.59	66.35

3. The above financials have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 01, 2024.

Place : Udaipur  
 Date : August 01, 2024

HAKIM SADIQ ALI TIOWALA  
 Whole-Time Director  
 DIN: 00119156

**MIRAE ASSET Mutual Fund**

**NOTICE NO. AD/38/2024**

**Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal under Mirae Asset Equity Savings Fund ("The Scheme")**

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., Trustees to Mirae Asset Mutual Fund ("MAMF") have approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under Mirae Asset Equity Savings Fund (An open ended scheme investing in equity, arbitrage and debt) as under:

Scheme / Plan / Option	Quantum** (₹ per unit)	NAV as on July 31, 2024 (₹ per unit)	Record Date*	Face Value (₹ per unit)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal option.	0.25	13.597	August 06, 2024	10.00
Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal option.	0.27	14.589		

\* or the immediately following Business Day, if that day is not a Business day.  
 \*\*subject to availability of distributable surplus as on the record date and as reduced by applicable statutory levy, if any.

**Pursuant to the payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the above-mentioned Plans of the Scheme will fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).**

Income distribution will be paid to those unitholders / beneficial owners whose names appear in the register of unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the depositories, as applicable, under the IDCW option of the aforesaid plans as on the record date.

For and on behalf of the Board of Directors of  
**MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.**  
 (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai  
 Date : August 01, 2024

Sd/-  
 AUTHORISED SIGNATORY

**MIRAE ASSET MUTUAL FUND** (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625). Statutory Details: Sponsor: Mirae Asset Global Investments Company Limited. Trustee: Mirae Asset Trustee Company Private Limited.  
 Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), 📧 customercare@miraeasset.com @www.miraeassetmf.co.in

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

**PROTIUM FINANCE LIMITED**  
 (FORMERLY KNOWN AS GROWTH SOURCE FINANCIAL TECHNOLOGIES LIMITED)  
 (FORMERLY KNOWN AS GROWTH SOURCE FINANCIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED)  
 Registered & Corporate Office Address: Nirilon Knowledge Park (NKP), B2, 7th Floor, Pahadi Village, Off Western Express Highway, Cama Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai 400 063, Maharashtra, CIN: U65999MH2019PLC323293  
 Telephone No.: 882 882 0004, Website: www.protium.co.in Customer Service E-mail ID: customerservice@protium.co.in

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 2024**  
 (Rs. In Lakhs, unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		
		June 30, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
1	Total income from operations	23,447.40	15,402.03	72,895.76
2	Net Profit/ (loss) for the period/year (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	6,021.80	3,705.78	15,696.61
3	Net profit/ (loss) for the period/year before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	6,021.80	3,705.78	15,696.61
4	Net Profit/(Loss) for the period/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	4,502.29	2,722.11	11,527.13
5	Total comprehensive income for the period/year [comprising profit/ (loss) for the year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	4,545.85	2,719.82	11,464.63
6	Paid up equity share capital	14,514.23	9,467.78	14,514.23
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	218,730.02	126,290.67	214,108.00
8	Securities premium account	197,780.10	119,060.29	197,780.10
9	Net worth	232,371.50	135,362.14	227,805.62
10	Paid up debt capital/ outstanding debt	245,035.86	147,248.28	268,162.82
11	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-
12	Debt equity ratio	1.05	1.08	1.17
13	Earnings per share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinuing operations)-			
	1. Basic	2.91	2.88	10.52
	2. Diluted	2.91	2.88	10.52
14	Capital redemption reserve	-	-	-
15	Debenture redemption reserve	-	-	-
16	Debt service coverage ratio	NA	NA	NA
17	Interest service coverage ratio	NA	NA	NA

Notes:  
 1. The above unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 31, 2024.  
 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation 2015. The full format of the quarterly unaudited financial results are available on the website of stock exchange at http://www.bseindia.com and also on the company's website at https://protium.co.in/  
 3. Earnings per share for the quarter ended have not been annualised.  
 4. Previous period/ year figures have been regrouped/rearranged wherever necessary, to conform with the current period presentation.

For and on behalf of the Board of Directors of  
**Protium Finance Limited**  
 Sd/-  
 Peeyush Misra  
 Managing Director & CEO  
 DIN: 08422699

Place: Mumbai  
 Date: July 31, 2024

**Bombay Dyeing**

**THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED**  
 (CIN: L17120MH1879PLC000037)  
 Registered Office: Neville House, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001  
 Contact Details: E-mail: grievance\_redressal\_cell@bombaydyeing.com; Phone: (91) (22) 66620000; Website: www.bombaydyeing.com

**Extract of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2024**  
 (₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)	June 30, 2023 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)	June 30, 2023 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)
1	Total income from operations	473.10	451.58	504.30	1,799.42	473.10	451.58	504.30	1,799.42
2	Net Profit/(Loss) for the period (before share of profit of associates and exceptional items)	20.41	14.09	(112.86)	(295.97)	20.41	14.09	(112.86)	(295.97)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	20.41	14.09	(112.86)	3,649.90	20.48	14.15	(112.83)	3,650.09
4	Net Profit / (Loss) for the period from continuing operations after tax	15.47	66.39	(119.84)	2,948.42	15.54	66.45	(119.81)	2,948.61
5	Net Profit / (Loss) for the period from discontinued operations after tax	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02
6	Net Profit/(Loss) for the period after tax	15.47	66.39	(119.84)	2,948.42	15.54	66.46	(119.81)	2,948.63
7	Other comprehensive income (net of tax)								
	(i) Items that will not be reclassified to profit or loss	89.09	(2.47)	47.95	175.83	89.09	(2.50)	47.95	175.76
	(ii) Items that will be reclassified to profit or loss	3.95	(4.38)	-	(4.38)	3.95	(4.38)	-	(4.38)
8	Total comprehensive income for the Period	108.51	59.54	(71.89)	3,119.87	108.58	59.58	(71.86)	3,120.01
9	Paid-up Equity Share Capital (Face value per share: ₹ 2)	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31	41.31
10	Other Equity				1,804.92				1,832.65
11	Earnings per share (of ₹ 2 each) (Not Annualised) (from continuing and discontinued operations)								
	(a) Basic (₹)	0.75	3.21	(5.80)	142.76	0.75	3.22	(5.80)	142.77
	(b) Diluted (₹)	0.75	3.21	(5.80)	142.76	0.75	3.22	(5.80)	142.77

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the stock exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website viz. www.bombaydyeing.com

Notes:  
 1. The above results which are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 1, 2024. The financial results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. The figures for the quarter ended March 31, 2024 as reported in these financial results are balancing figures between the audited figures for the full financial year ended March 31, 2024 and published year to date figures upto the end of the third quarter of the financial year ended March 31, 2024, which were subjected to limited review. The unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors.  
 2 a In terms of Ind AS 115 on "Revenue from Contract with Customers", Revenue from present real estate project of ICC Towers is recognised "at a point in time", that is, upon receipt of Occupancy Certificate. Occupancy Certificates for the first phase, second phase, third phase, fourth phase and fifth phase were received during the year ended March 31, 2019, March 31, 2020, March 31, 2022, March 31, 2023 and March 31, 2024, respectively. Revenue includes net income arising on cancellation of contracts on non-fulfilment of payment terms by customers, if any.  
 2 b Since the nature of real estate activities being carried out by the Company is such that profits/losses from transactions of such activities, do not necessarily accrue evenly over the year, results of a quarter may not be representative of profits/ losses for the year.  
 3 Income tax expenses (Current Tax and/or Deferred Tax) for the interim period is recognised on the pre-tax income (or loss) using the separate tax rate that would be applicable on expected total annual income for each category of income ("effective annual tax rate"). For the purpose of recognising income tax expenses, the tax or reversal thereof on any income of non-recurring nature ("one-off items") is considered when they occur and the tax effect of such 'one-off' items is not included in the effective annual tax rate. Section 115BAA in the Income-tax Act, 1961 provides an option to the Company for paying income tax at reduced rates as per the provisions/conditions defined in the said section (New Tax regime). Since the Company has decided to opt for the New Tax regime from the financial year ended March 31, 2024, the Company has provided the current tax and deferred tax assets and liabilities at the rates given under the New Tax regime. Amounts accrued for income tax expense, including any reversal of deferred tax asset which would not be recoverable, in one interim period may have to be adjusted in subsequent interim period of that financial year, if the estimate of the annual effective income tax rate changes. In absence of any binding agreement or convincing evidence that future taxable profits will be available, deferred tax assets on unused tax losses as available as at the quarter ended June 30, 2024 have not been recognised.  
 4 Foreign Subsidiary, PT Five Star Textile Indonesia (PTFS) is included in consolidated results and consolidated segment assets and consolidated segment liabilities, which is classified as a discontinued operation in accordance with Ind AS 105 in 'Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations'.  
 5 The Company on July 18, 2024, has executed the Share Purchase, Subscription and Shareholder's Agreement ("SPSSA") along with the Power Purchase Agreement and Option Agreement ("Transaction Documents") to acquire up to 26% equity stake in one or more tranches in AMP Energy C&I Twenty Seven Private Limited (a wholly owned subsidiary of AMP Energy C & I Private Limited), for setting up captive solar power project in Maharashtra.  
 6 The Securities and Exchange Board of India (SEBI) passed an order dated October 21, 2022 pursuant to a show cause notice dated June 11, 2021 ("SEBI Order"). The SEBI order makes certain observations inter alia on alleged inflation of revenue and profits by the Company in Financial Statements for the period from FY 2011-12 to 2017-18 and non-disclosure of material transactions, on the basis of SEBI's interpretation of MoUs executed by the Company with Scal Services Limited. The SEBI order, inter alia, imposes penalty of ₹ 2.25 Crore on the Company, restrains the Company from accessing securities market for a period of 2 years, imposes penalties and restrictions on two of its present directors from accessing / being associated with securities market, including being a Director and Key Managerial Personnel of any listed entity, for a period of one year.  
 The SEBI Order also categorically and positively finds that there was no diversion or misutilization or siphoning of assets of the Company, and no unfair gain was made or loss inflicted by reason of the violation alleged. The Company states that the Financial Statements from FY 2011-12 to FY 2017-18 were validly prepared, reviewed by the Audit Committee, approved by the Board, reported without any qualification by the Statutory Auditors and adopted by the Shareholders in each of the relevant years. The Company is firm in its view that all transactions were entirely legitimate and in compliance with law and applicable Accounting Standards.  
 The Company had filed an appeal with Securities Appellate Tribunal (SAT) against the aforesaid SEBI Order and obtained a stay on operation of the said Order on November 10, 2022. Though the hearings on the subject matter were concluded, in the wake of retirement of Hon'ble Presiding Officer, the matter is being freshly heard before a newly constituted bench and now it is adjourned to September 2, 2024.

FOR THE BOMBAY DYEING AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED

NUSLI N. WADIA  
 CHAIRMAN  
 (DIN-00015731)

Place: Mumbai  
 Date: August 1, 2024

